

यदि आपका COVID-19 टीकाकरण कहीं विदेश में हुआ है, तो अपने टीकाकरण का प्रमाण कैसे दिखाना है

यदि आपको कोई स्वीकृति या मान्यता प्राप्त COVID-19 वैक्सीन 19 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद विदेश में लगाई गई है और आप एक **Australia Travel Declaration (ऑस्ट्रेलिया यात्रा घोषणापत्र)** के साथ ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करते हैं, तो आप इसका उपयोग अपने COVID-19 टीकाकरण के सबूत के रूप में कर सकते हैं। COVID-19 टीकाकरण के सबूत के रूप में दिखाने के लिए **COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र या टीकाकरण इतिहास का ब्यौरा (स्टेटमेंट)** प्राप्त करने के लिए आप ऑस्ट्रेलियाई टीकाकरण रजिस्टर (AIR) पर अपने टीकाकरण को रिकॉर्ड करने हेतु नीचे बताए गए कदम उठा सकते हैं।

- 1 जाँच करें कि आपने विदेशों में जो वैक्सीन लगवाई है, क्या वह ऑस्ट्रेलिया में स्वीकृत या मान्यता प्राप्त (वर्तमान में Pfizer, AstraZeneca Vaxzevria, Moderna, Janssen-Cilag, Sinovac Coronavac, AstraZeneca Covishield, Sinopharm और Bharat Biotech) है।
- 2 यदि आपके टीकाकरण का रिकॉर्ड किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, तो इसका अनुवाद अंग्रेज़ी में करवा लें। यह देखने के लिए translating.homeaffairs.gov.au पर जाएँ कि क्या आप निःशुल्क अनुवाद सेवा का उपयोग करने के योग्य हैं।
- 3 किसी मान्यता प्राप्त टीकाकरण प्रदाता (उदाहरण के लिए, कोई GP या किसी फार्मासिस्ट) से कहें कि आपके टीकाकरण को AIR में रिकॉर्ड कर दें। फिर यह आपके COVID-19 डिजिटल प्रमाणपत्र और टीकाकरण इतिहास की स्टेटमेंट पर दिखाई देने लगेगा।
- 4 निम्न तरीकों में से किसी एक का उपयोग करके अपना प्रमाणपत्र या स्टेटमेंट प्राप्त करें:

myGov (मायगव) के माध्यम से आपका मैडिकेयर ऑनलाइन अकाउंट	The Express Plus Medicare mobile app (एक्सप्रेस प्लस मेडिकेयर मोबाइल एप)	व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता सेवा (IHI) (यदि आप मैडिकेयर के योग्य नहीं हैं)
<ol style="list-style-type: none"> 1. my.gov.au पर जाएँ और साइन इन करें 2. Proof of COVID-19 टीकाकरण क्लिक लिंक का चयन करें 3. View History का चयन करें 4. अपना नाम चुनें और इसके बाद या View immunisation history statement या View COVID-19 digital certificate देखें। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Express Plus Medicare app में लॉग इन करें 2. सेवाओं में से Proof of vaccinations का चयन करें 3. View History का चयन करें 4. अपना नाम चुनें। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. my.gov.au पर जाएँ और साइन इन करें 2. Individual Healthcare Identifiers service (व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता सेवा) का चयन करें। 3. Immunisation history (टीकाकरण इतिहास) का चयन करें।

नोट: यदि आप मैडिकेयर के लिए योग्य नहीं हैं और ऑनलाइन अपने COVID-19 टीकाकरण के प्रमाण की आवश्यकता है, तो आपको एक व्यक्तिगत हेल्थकेयर पहचानकर्ता (IHI) की आवश्यकता होगी। आप myGov के माध्यम से एक IHI प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए servicesaustralia.gov.au/covidvaccineproof पर जाएँ

- 5 COVID-19 टीकाकरण के अपने प्रमाण को सेव कर लें। आप अपने Apple Wallet या Google Pay में अपना प्रमाणपत्र शामिल कर सकते हैं या इसे Express Plus Medicare मोबाइल एप पर सेव कर सकते हैं। परिसरों में चेक इन करने पर तुरंत और आसानी से प्रमाण दिखाने के लिए आप Service NSW ऐप में भी टीकाकरण का अपना प्रमाण शामिल कर सकते हैं। यह कैसे करना है इसके बारे में nsw.gov.au/covidvaccineproof पर पता लगाएँ। वैकल्पिक रूप से, आप घर पर अपने प्रमाणपत्र या बयान की एक प्रतिलिपि प्रिंट कर सकते हैं। myGov, या Express Plus Medicare एप के माध्यम से अपने मैडिकेयर ऑनलाइन खाते का उपयोग करके PDF रूप में डाउनलोड करें, फिर इसे प्रिंट करें और अपने साथ ले जाएँ। एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी स्वीकार की जाएगी।

यदि आप किसी स्वास्थ्य कारणों (medical contraindication) की वजह से COVID-19 टीका नहीं लगवा सकते हैं (जिसका अर्थ है कि चिकित्सीय कारणों की वजह से आप COVID-19 के कोई भी टीके नहीं लगवा सकते), तो आप अपने डॉक्टर से कह सकते हैं कि वह इस/इन स्वास्थ्य कारण/कारणों को AIR में रिकॉर्ड कर दें। फिर यह आपके प्रमाणपत्र और स्टेटमेंट पर दिखाई देने लगेगा।

> **NSW को COVID से सुरक्षित रहने में मदद करें**

अधिक जानकारी के लिए nsw.gov.au/covidvaccineproof पर जाएँ